

The Minister of Planning and Labour and Employment (Shri Nanda): (a) and (b). The proposal is still under consideration of the Government.

समाचार-पत्र उद्योग में एकाधिकार प्रवृत्तियाँ

- \*३०५. श्री भक्त दर्शन :  
 श्री भागवत झा आजाद :  
 श्री श्रीनारायण दास :  
 श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :  
 श्री मे० क० कुमारन :  
 श्री नो० श्रीकान्त नायर :  
 श्री विद्याचरण शुक्ल  
 श्री दी० च० शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि समाचार-पत्र उद्योग में स्वामित्व के एकत्रीकरण और एकाधिकारक प्रवृत्तियों का अध्ययन करने में दस वीच क्या प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बी० गोपाल रेड्डी) : यह विषय अभी विचागधीन है ।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

- \*३०६. श्री भक्त दर्शन :  
 श्री दी० च० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अब और आगे क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : संस्थापको ने अभी तक प्रस्तावित विदेशी सहयोग की शर्तों का धोरा प्रस्तुत नहीं किया है ।

Financial Position of Dandakaranya Project

\*307. Shri P. K. Deo: Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) whether Chairman of the Dandakaranya Development Authority in a recent statement at Bhubaneswar described the present financial position of the Dandakaranya Project as "unsatisfactory"; and

(b) if so, whether the statement is correct?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). A statement is placed on the Table of the Sabha. [See Appendix I, annexure No. 71].

Import of Books

\*308. Shri Hem Barua: Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state whether it is a fact that Government propose to impose restrictions on the import of books in pursuance of its reorientated import policy?

The Minister of International Trade in the Ministry of Commerce and Industry (Shri Manubhai Shah): The Established Importers quota or import of books has recently been reduced from 100 per cent to 75 per cent, on account of the general cut in imports in view of the tight foreign exchange position. No other new restrictions have been imposed on import of books during the current licensing period. Import of books on technical and educational subjects by libraries, educational institutions etc. has not been affected and no cuts have been made in their imports.

Prices of Daily Newspapers

\*309. Dr. L. M. Singhvi: Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether Government are aware that daily newspapers in Delhi have increased their prices with effect from 1st August, 1962;